

प्रेस विज्ञप्ति

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 सहारनपुर द्वारा अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व 02 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: -

अवगत कराना है, कि दिनांक 08.03.2019 को वादी मौ० शाहीद पुत्र मौ० इस्लाम नि० मौ० सराय कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर के भाई सुऐब को अभियुक्तगणों 1-मनोज पुत्र बिजेन्द्र 2-सारंग पुत्र बोबी उर्फ देवेन्द्र 3-अमन पुत्र बोबी उर्फ देवेन्द्र एवं 4-देवेन्द्र उर्फ बोबी पुत्र वीर सिंह समस्त निवासीगण मौ० सराय कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा मार पीटकर कर घायल कर देना व इलाज के उपरान्त मृत्यु हो जाने की सूचना पर मु०अ०स० 86/2019 धारा 304,302 भादवि में थाना रामपुर मनिहारन पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 301/2019 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-12 स०पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मानेटरिंग सैल से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-12 स०पुर द्वारा आज दिनांक 26.03.2021 को अभियुक्त 1-मनोज पुत्र बिजेन्द्र 2-सारंग पुत्र बोबी उर्फ देवेन्द्र 3-अमन पुत्र बोबी उर्फ देवेन्द्र एवं 4-देवेन्द्र उर्फ बोबी पुत्र वीर सिंह को मु०अ०स० 86/2019 धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 26-03-2021

साईबर क्राईम थाना परिक्षेत्र सहारनपुर पुलिस द्वारा पीड़ित के खाते से इन्टरनेट बैंकिंग का अवैध प्रयोग करते हुए निकाली गई 14,78,095/- रुपये की धनराशि कराई गई वापस, पीड़ित ने पुलिस टीम

का किया धन्यवाद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 23-03-2021 को श्री के0 राजाराम निवासी सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, सहारनपुर नगर निगम द्वारा साईबर क्राईम थाना परिक्षेत्र सहारनपुर पर लिखित प्रार्थना पत्र देते हुये अवगत कराया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इन्टरनेट बैंकिंग का अवैध प्रयोग करते हुए वादी के खाते से 14,78,095/- रुपये निकाल लिये गये है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अपराध के अनावरण हेतु अपर पुलिस महानिदेशक साईबर क्राईम उ0प्र0 श्री राम कुमार द्वारा अनावरण हेतु साईबर क्राईम थाना परिक्षेत्र सहारनपुर को निर्देशित किया गया। जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर एवं पुलिस अधीक्षक साईबर क्राईम उ0प्र0 के निकट पर्यवेक्षण में अपराध का अनावरण व शत प्रतिशत बरामदगी हेतु साईबर क्राईम थाना परिक्षेत्र सहारनपुर के अधि0/कर्मचारियों की टीम गठित की गयी।

जिसके क्रम में साईबर क्राईम थाना परिक्षेत्र सहारनपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी के खाते से इन्टरनेट बैंकिंग द्वारा हुए अवैध ट्रान्जेक्शन को ट्रेस करते हुए वादी की सम्पूर्ण धनराशि 14,78,095/- रुपये को वादी के खाते मे वापस कराने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 14,78,095 रुपये।

अनावरण करने वाली पुलिस टीम:-

- ❖ प्रभारी निरीक्षक प्रवीन कुमार यादव साईबर क्राईम थाना परिक्षेत्र सहारनपुर
- ❖ उ0नि0 नवीन कुमार साईबर क्राईम थाना परिक्षेत्र सहारनपुर
- ❖ कम्प्युटर ऑपरेटर ग्रेड-ए गौरव तोमर साईबर क्राईम थाना परिक्षेत्र सहारनपुर
- ❖ का0 1449 ओमनाथ चौहान साईबर क्राईम थाना परिक्षेत्र सहारनपुर
- ❖ का0 873 गौरव कुमार साईबर क्राईम थाना परिक्षेत्र सहारनपुर
- ❖ का0 1411 रोहित डबास साईबर क्राईम थाना परिक्षेत्र सहारनपुर
- ❖ का0 1074 शिवानन्द साईबर क्राईम थाना परिक्षेत्र सहारनपुर
- ❖ का0 1112 निशान्त तोमर साईबर क्राईम थाना परिक्षेत्र सहारनपुर
- ❖ का0 1287 अनुज मावी साईबर क्राईम थाना परिक्षेत्र सहारनपुर



प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 26-03-2021

सहारनपुर पुलिस द्वारा आगामी त्योहारों/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 की तैयारियों एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ बनायें रखने हेतु 24

घंटो के अन्दर की गई कार्यवाही:-

- जनपद पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 107/116 द0प्र0सं0 के तहत 57 वादो में कुल 1015 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।
- शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत आपराधिक छवि के कुल 06 अभियुक्तो के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई है।
- जनपद के विभिन्न थानो द्वारा आबकारी, चोरी, गैंगेस्टर, लूट एवं आर्म्स एक्ट में वांछित चल रहे कुल 20 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
- थाना देवबंद, थाना नानौता, थाना सदर बाजार, थाना कोतवाली नगर एवं थाना मंडी पुलिस द्वारा अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र में कुल 11 अभियुक्तो को गिरफ्तार करते हुए 140 लीटर अवैध कच्ची शराब, 487 पक्के देशी शराब एवं 02 नाजायज चाकू बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।
- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ बनाये रखने हेतु 24 घंटों में कुल 557 लाईसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये।
- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा संवेदनशीलता को कम करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में शान्ति समिति की मीटिंग करते हुये निर्वाचन को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु क्षेत्रवासियों से अपील की जा रही है। इसके अतिरिक्त जनपद के प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों को क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर कानून-व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 26-03-2021

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), सहारनपुर द्वारा 10 अभियुक्तों

के विरुद्ध की गई जिलाबदर की कार्यवाही:-

अवगत कराना हैं, कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), सहारनपुर द्वारा 10 अभियुक्तों को धारा 03 यूपी गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुये जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिये निष्कासित किया गया हैं। निष्कासित किये गये अभियुक्तों का नाम व पता निम्नवत् हैं:-

- दाउद पुत्र उमर हसन निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड, सहारनपुर।
- मौहम्मद अली पुत्र सिबते हसन निवासी ग्राम हलवाना थाना गंगोह, सहारनपुर।
- इसराईल उर्फ भूरा पुत्र सालिम निवासी ग्राम बेगीरूस्तम थाना गंगोह, सहारनपुर।
- रिहान पुत्र महमूद निवासी ग्राम कुण्डा खुर्द थाना गंगोह, सहारनपुर।
- अबूजर पुत्र महमूद निवासी ग्राम कुण्डा खुर्द थाना गंगोह, सहारनपुर।
- राजू उर्फ राजकुमार पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता, सहारनपुर।
- ओमवीर पुत्र तेल्लूराम निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता, सहारनपुर।
- अलीशन पुत्र फक्कर निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।
- साबिर पुत्र फारूख निवासी ग्राम चाण्डीघेर थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- भूरा पुत्र जफ्फर निवासी मौ0 अफगनान कलां थाना तीतरों, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 26-03-2021

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 25-03-2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा आम का बाग ग्राम कुरलकी रास्ते पर से अभि० 1-रविन्द्र पुत्र कालू, 2-अर्जुन उर्फ गुडडू पुत्र टोनी व 3-धर्मवीर पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम कुरलकी थाना देवबन्द, सहारनपुर को 60 लीटर शराब खाम सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु०अ०सं० 191,192,193/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना नानौता पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 25-03-2021 को थाना नानौता पुलिस द्वारा आम का बाग ओलरा रोड से अभि० 1-सददाम पुत्र जरीफ निवासी मौ० छत्ता थाना नानौता व 2-नाजिर कुरैशी पुत्र फुरकान निवासी मौ० शेखजादगान थाना नानौता, सहारनपुर को 432 पव्वे अरुणाचल प्रदेश मार्का अंग्रेजी शराब व 04 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु०अ०सं० 97/21 धारा 63 आबकारी अधि० व 272,273 भादवि पंजीकृत किया गया।

थाना नानौता पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 25-03-2021 को थाना नानौता पुलिस द्वारा गंगोह रोड रूहाडापुल कस्बा व थाना नानौता से अभि० मुकर्रम पुत्र यासीन निवासी मौ० चाहमंजली कोट कस्बा व थाना नानौता, सहारनपुर को 80 लीटर शराब खाम सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु०अ०सं० 98/21 धारा 60(1)ख आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना को०नगर पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 25-03-2021 को थाना को०नगर पुलिस द्वारा गडडो वाली मस्जिद नूर बस्ती से अभि० मोहम्मद शहजाद पुत्र मोहम्मद आजाद निवासी नूर बस्ती थाना को०नगर, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को०नगर पर मु०अ०सं० 73/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना मण्डी पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 25-03-2021 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा पीर वाली गली पुल के पास से अभि० राशीद पुत्र अनवर निवासी पीर वाली गली नम्बर 13 थाना मण्डी, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु०अ०सं० 193/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना मण्डी पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 25-03-2021 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा ओझाडिया पीर के सामने से अभि० 1-इस्तखार पुत्र जाहिद निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर व 2-वसीम पुत्र खलील निवासी इन्द्रचौक थाना मण्डी, सहारनपुर को 40 पव्वे देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु०अ०सं० 194,195/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 25-03-2021 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा भगत सिंह की मूर्ति के पास खलासी लाईन से अभि० नीशु पुत्र राजेन्द्र निवासी काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार, सहारनपुर को 15 पव्वे देशी शराब तोहफा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु०अ०सं० 154/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल
सहारनपुर।